

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर 2010—आश्विन 1, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2010

फा. क्र..17(ई)-181-10 -इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के शाजापुर, मंदसौर एवं रायसेन जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 24 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला शाजापुर

अनु (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)	अवधि (4)
1	श्री एच. एस. वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाजापुर	23-9-10 से 30-9-10
2	श्री जी. एस. प्रजापति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मो. बड़ोदिया	23-9-10 से 30-9-10
3	श्री दिनेश वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शुजालपुर	23-9-10 से 30-9-10
4	श्री पी. एस. चौधरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कालापीपल	23-9-10 से 30-9-10
5	श्रीमती विष्णुकांता गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर	23-9-10 से 30-9-10
6	श्री सुनील खत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुसनेर	23-9-10 से 30-9-10
7	श्री के. के. खेड़े	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नलखेड़ा	23-9-10 से 30-9-10
8	श्री एन. के. त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बड़ौद	23-9-10 से 30-9-10
9	श्री आर. जी. एम. पटेल	अधीक्षक, भू-अभिलेख, शाजापुर	23-9-10 से 30-9-10
10	श्री डी. आर. मिश्रा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, शाजापुर	23-9-10 से 30-9-10
11	श्री एम. आर. श्रोत्रिय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, शाजापुर	23-9-10 से 30-9-10
12	श्री आर. के. माहोर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, शाजापुर	23-9-10 से 30-9-10

जिला मंदसौर

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)	कार्यालय/विभाग का नाम (4)
1	डॉ. अशोक कुमार भार्गव	अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी	कार्यालय, जिला पंचायत, मंदसौर
2	श्री सुनील कुमार सिंह	उप पंजीयक	कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्था, मंदसौर.
3	श्री सूरज नागर	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग, मंदसौर
4	श्री एस. एन. दुबे	जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, मंदसौर.
5	डॉ. जे. के. जैन	पशुपालन विकास अधिकारी	कार्यालय, जिला पशु चिकित्सालय, मंदसौर.
6	श्री आर. डी. बिल्लौरै	अधीक्षक	कार्यालय अधीक्षक, भू-अभिलेख, मंदसौर.

जिला रायसेन

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग	रायसेन जिले का क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री ए. के. एस. चौहान	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायसेन.	भारतीय वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, रायसेन
2	श्री यू. एस. रस्तोगी	वनमण्डलाधिकारी, उत्पादन वनमण्डल, रायसेन.	भारतीय वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, बेगमगंज
3	श्री रविन्द्र सक्सेना	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, औबेदुल्लागंज.	भारतीय वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, औबेदुल्लागंज
4	श्री आदर्श श्रीवास्तव	उप वनमण्डलाधिकारी, रायसेन	राज्य वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, गैरतगंज
5	श्री व्ही. के. जैन	उप वनमण्डलाधिकारी, रायसेन	राज्य वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, सिलवानी
6	श्री के. एन. सक्सेना	उप वनमण्डलाधिकारी, औबेदुल्लागंज	राज्य वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, उदयपुरा
7	श्री आर. एस. विश्वकर्मा	उप वनमण्डलाधिकारी, सुल्तानपुर	राज्य वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, बरेली
8	श्री सी. एस. दुबे	अधीक्षक, सिंघोरी, अभ्यारण बाड़ी	राज्य वन सेवा	सम्पूर्ण तहसील, बाड़ी
9	श्री संजीव नागू	अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायसेन	भू-अभिलेख सेवाएं	कस्बा औबेदुल्लागंज
10	श्री ए. के. मांझी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायसेन.	भू-अभिलेख सेवाएं	कस्बा बेगमगंज
11	श्री एल. एल. करोदिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायसेन.	भू-अभिलेख सेवाएं	कस्बा सिलवानी
12	श्री यू. सी. जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायसेन.	भू-अभिलेख सेवाएं	कस्बा गैरतगंज